

इस अंक में...

- 6 | उदासी व खुशी के मध्य समता ही वास्तविक सुख
- 8 | समसामयिकी घटना संग्रह
- 10 | समसामयिकी संक्षिप्तकियाँ
- 21 | आर्थिक घटना संग्रह

- दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिंसोदिया ने वर्ष 2016-17 का बजट पेश किया
- कैपिटल लोकल एरिया बैंक आरबीआई से लघु वित्त बैंक का लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला बैंक बना
- भारत ने विश्व बैंक के साथ 35 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
- सचिवों के समूह ने शिक्षा पाने के अधिकार को बारहवीं कक्षा तक विस्तारित करने का सुझाव दिया

25 राष्ट्रीय घटना संग्रह



- रियल एस्टेट विधेयक लोक सभा में पारित
- सरकार ने बीटी कॉटन के बीज का अधिकतम बिक्री मूल्य तय किया
- पहली रायसीना वार्ता नई दिल्ली में आयोजित

29 अन्तर्राष्ट्रीय घटना संग्रह

- भारत और अमरीका ने फुलब्राइट कलाम जलवायु फैलोशिप लांच की
- साइबर अपराध रोकने को भारत-संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता
- भारत एवं बांग्लादेश ने 2 अरब डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

32 खेल खिलाड़ी



- शेष भारत ने मुम्बई को हराकर ईरानी कप क्रिकेट खिताब जीता
- पटना पाइरेट्स ने स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी लीग के तीसरे संस्करण का खिताब जीता
- पेशेवर मुक्केबाजी में विजेन्द्र सिंह ने लगातार चौथी जीत दर्ज की

35 | महत्वपूर्ण तथ्य संग्रह

लेख

- 38 सामयिक लेख—हिसक होती आरक्षण की माँग
- 39 कैरियर लेख—बी.एड. प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करें ?
- 41 प्रौद्योगिकी लेख—व्हाइट स्पेस परियोजना वार्षिक रिपोर्ट 2014-15
- 84 कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, स्कीम्स तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-पर्यवलोकेन
- 87 प्रथम पुरस्कृत तार्किक प्रतियोगिता
- 88 तार्किक प्रतियोगिता क्रमांक-73 का परिणाम
- 89 रोजगार अवसर

हल प्रश्न-पत्र

- 42 उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा, 2015
- 46 मध्य प्रदेश जेल प्रहरी परीक्षा, 2015
- एस.बी.आई. के सहयोगी बैंक लिपिकीय संवर्ग परीक्षा, 2015
- 54 तर्कशक्ति
- 57 संख्यात्मक अभियोग्यता
- 61 General English
- 65 आगामी रेलवे भर्ती बोर्ड सम्मिलित (गैर-तकनीकी श्रेणी) परीक्षा हेतु विशेष हल प्रश्न
- 71 एस.एस.सी. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) परीक्षा, 2015
- 78 रेलवे रिक्रूटमेंट सैल (दिल्ली) ग्रुप 'डी' परीक्षा, 2014

सर्वाधिकार सुरक्षित, प्रकाशक की पूर्व लिखित अनुमति के इस मैगजीन का कोई भी भाग न तो पुनरुत्पादित किया जाएगा और न किसी भी रूप में, जैसे-इलेक्ट्रॉनिक, मेकेनिकल, फोटोकॉपीइंग, रिकॉर्डिंग अथवा अन्य प्रकार स्कोर किया जाएगा. हालांकि इस संस्करण में प्रकाशित सूचनाओं के सही होने का हरसम्भव प्रयास किया गया है, फिर भी न तो प्रकाशक व न अन्य कोई कर्मचारी किसी भी त्रुटि अथवा छूट के लिए उत्तरदायी होगा. अस्वीकृत रचनाओं को लेखकों को वापस भेजने के लिए उनके साथ स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा मय उपयुक्त डाक टिकटों के प्राप्त होगा. रचना के देर से पहुँचने अथवा रास्ते में खो जाने की कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती. पत्रिका में लेखकों द्वारा प्रेषित बयानों, विचारधाराओं तथा प्रकाशित विज्ञापनों की कोई जिम्मेदारी 'सर्वसेस मिरर' की नहीं है.

- ◉ सम्पादक : महेन्द्र जैन
- ◉ रजिस्टर्ड ऑफिस : 2/11-ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-2
- ◉ सम्पादकीय ऑफिस
1, स्टेट बैंक कॉलोनी, वन चेतना केन्द्र के सामने
आगरा-मथुरा बाईपास, आगरा-282 005
फोन- 4053333, 2531101, 2530966
फैक्स- (0562) 4053330
ई-मेल: सम्पादकीय: publisher@pdgroup.in
कस्टोमर केयर: care@pdgroup.in
- ◉ दिल्ली ऑफिस
4845, अंसारी रोड, दरियागंज,
नई दिल्ली-110 002
फोन- 011-23251844/66
- ◉ पटना ऑफिस
पारस भवन (प्रथम तल),
खजांची रोड,
पटना- 800 004
फोन- 0612-2673340
मो- 09334137572
- ◉ कोलकाता ऑफिस
28, चौधरी लेन, श्याम बाजार
कोलकाता- 700 004
फोन- 033-25551510
मो- 07439359515
- ◉ हैदराबाद ऑफिस
1-8-1/B, आर. आर. कॉम्प्लेक्स
बाग लिंगमपल्ली, हैदराबाद-500 044
फोन- 040-66753330
मो- 09391487283
- ◉ लखनऊ ऑफिस
B-33, ब्लॉक स्ववायर, कानपुर
टैक्सो स्टैण्ड लेन, मवईया,
लखनऊ- 226 004
फोन- 0522-4109080
मो- 09760181118
- ◉ नागपुर ऑफिस
1461, जूनी शुक्रवारी,
सक्करवरा रोड, शारदा माता
मन्दिर के पास,
नागपुर-440 009 (महाराष्ट्र)
मो- 09370877776
- ◉ हल्द्वानी ऑफिस
8-310/1, ए. के. हाउस
हीरानगर, हल्द्वानी,
जिला-नैनीताल- 263 139 (उत्तराखण्ड)
मो- 07060421008

उदासी व खुशी के मध्य समता ही वास्तविक सुख



—साध्वी वैभवश्री 'आत्मा'

Balance in every emotion is difficult, but not impossible. Balance is the real way to live life joyfully.

When you are joyous, look deep into your heart and you shall find it is only that which has given you sorrow that is giving you joy.

When you are sorrowful look again in your heart, and you shall see that in truth you are weeping for that which has been your delight.

—Kahlil Gibran

'Two wrongs don't make a right'.

किसी गलत काम के जवाब में किया गया गलत काम सही नहीं होता.

आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे काम निकलवाने के बाद आपको पहचानना बंद कर देते हैं, जरूरत के समय 100 फोन किया करते थे, अब आपका नंबर देखते ही Busy tone पर Phone को रख देते हैं. अथवा स्वार्थ पूर्ति हो जाने के बाद आभार दिए बिना, मुस्कराए बिना निकल जाते हैं और ऐसा करते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है ? ऐसे लोगों के प्रति आपके मन में प्रतिक्रियाएं उठना, द्वेष या दुर्भाव जगना स्वाभाविक सा हो सकता है, किन्तु इस बात को ध्यान में अवश्य लेना कि प्रतिक्रिया करके आप न तो स्वयं का कुछ भला कर पाओगे और न उनका जिनके प्रति आपके मन में द्वेष या दुर्भाव है. प्रतिक्रिया या दुःख, द्वेष या शिकायतें रखकर भी आप उसे बदल सकोगे, ऐसा नहीं है. यहाँ समझ विकसित करो कि किसी गलत काम के जवाब में किया गया गलत काम सही नहीं होता. दुर्भावना पालने से आपका ही मन अपनी ऊर्जा शक्ति का अपव्यय करेगा. आप बदला लेने की भावना रखने की बजाय अपने मन के प्रवाह को बदलो. हाँ, भूल कर भी ऐसी धारणाएं मत बनाओ कि सारे ही लोग खराब ही हैं, स्वार्थी ही हैं. जमाना ही खराब है. अगर आप ऐसा मानते हो, तब भी आपके भीतर का यह नकारात्मक विश्वास आपके भविष्य को विकृत कर देगा. अगर आपको किसी का दुर्व्यवहार कष्ट देता है, तो आप दिल बड़ा करके उनको क्षमा करना सीखें. उनके लिए यही कहें कि, 'चलो जो हुआ अच्छा हुआ', जल्दी ही पता लग गया किसी की फितरत का, ये भी अच्छा हुआ. हम अकारण-अनावश्यक किसी को न पुकारें, न कॉल करें, हर हाल में स्वयं में सीमित व मस्त-प्रफुल्लित रहें. औरों का व्यवहार आपको ज्यादा दुःख देता है या कम—यह उनके व्यवहार पर

नहीं, बल्कि आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है. अक्सर ज्यादा अपेक्षा रखने वाला ज्यादा दुःखी होता है व कम अपेक्षा रखने वाला, सबसे आवश्यक सम्बन्ध रखने वाला दुःखी नहीं होता. हम सदा याद रखें कि—

मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं,
स्वप्न के परदे निगाहों से हटाती हैं।
हौसला मत हार गिरकर ओ' मुसाफिर,
ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं।